

और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

- **भारत की 2023 G20 अध्यक्षता** के दौरान **अफ्रीकी संघ (AU)** को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
- G20 अध्यक्षता के बाद से भारत **वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिति (VOGSS)** की मेज़बानी करता रहा है, जिसमें सभी अफ्रीकी देश भाग लेते हैं।
 - भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान और उसके बाद अभी तक VOGSS के तीन संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा: भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD)** सुरक्षा सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- **आर्थिक संबंध:** भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा संचयी निवेश 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
 - **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (AfCFTA)** गहन आर्थिक एकीकरण की संभावनाओं के मार्ग खोलता है। भारत अपनी **शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP)** योजना के माध्यम से कम विकसित देशों (LDC) को गैर-पारस्परिक शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुँच प्रदान करने वाला पहला विकसित देश है।
- **डिजिटल और तकनीकी सहयोग:** भारत अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिये **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

और पढ़ें: [भारत-अफ्रीका सहयोग में नए रास्ते](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन (इंडिया-अफ्रीका सम्मति)

1. जो वर्ष 2015 में हुआ, तीसरा सम्मेलन था
2. की शुरुआत वास्तव में वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)